



# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट







## प्रमुख खबरें

- अक्टूबर में भारत का निर्यात 17% घटकर 29.78 अरब डॉलर का हुआ है और व्यापार घाटा बढ़कर 26.91 अरब डॉलर हो गया है: वाणिज्य मंत्रालय।
- एसईए के अनुसार भारत का अप्रैल-अक्टूबर ऑयलमिल निर्यात 38.45% बढ़कर 19.84 लाख टन हो गया।
- एसईए के अनुसार भारत का खाद्य तेल आयात बिल 34% बढ़कर 1.57 ट्रिलियन रुपये का हो गया है।
- अक्टूबर महीने के दौरान भारत में सोने का आयात 27.47 प्रतिशत घटकर 3.7 अरब डॉलर का हुआ है: वाणिज्य मंत्रालय।
- भारतीय खाद्य निगम के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, खरीफ बाजार सीजन 2022-23 में केंद्रीय पूल के लिए 7 नवंबर तक धान की खरीद पिछले वर्ष की समान अवधि के 20.08 मिलियन टन की तुलना में 6.8% बढ़कर 21.45 मिलियन टन हुई है।
- अक्टूबर में भारत एक बार फिर से स्टील का शुद्ध आयातक बन गया। अक्टूबर में स्टील का आयात 5,93,000 टन हुआ है जबकि निर्यात 2,33,000 टन हुआ है: इस्पात मंत्रालय।
- भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई) इस साल अक्टूबर में 8.39 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर में 10.7 प्रतिशत थी।
- कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार सितंबर तक 2022-23 सीजन में भारत में घरेलू कपास की मांग लगभग 18 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) कम होकर 300 लाख गांठ या पिछले साल की 318 लाख गांठ से लगभग 6 प्रतिशत कम होने का अनुमान है।
- केंद्र ने पिछले आठ वर्षों के दौरान लगभग 10 लाख करोड़ रुपये इस लिए खर्च किए हैं कि देश के किसान उर्वरकों की उच्च वैश्विक कीमतों से प्रभावित न हों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	11.11.22	17.11.22	बदलाव (%)
सीसेम सीड	15320.00	17505.00	14.26%
ग्वारसीड	5076.00	5673.00	11.76%
ग्वारगम	10219.00	11110.00	8.72%
धनिया	10426.00	11254.00	7.94%
बाजरा	2051.00	2105.00	2.63%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	11.11.22	17.11.22	बदलाव (%)
स्टील	45530.00	43360.00	-4.77%
गुड़	1217.50	1182.50	-2.87%
जीरा	24565.00	24230.00	-1.36%
कपास	1751.50	1740.50	-0.63%
कॉटनऑयलसीडकेक	2762.00	2752.00	-0.36%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	11.11.22	17.11.22	बदलाव (%)
निकल	2075.00	2496.00	20.29%
नेचुरल गैस	476.00	527.30	10.78%
सोना गिनी	41573.00	42350.00	1.87%
सोना पेटल	5191.00	5243.00	1.00%
सोना	52334.00	52843.00	0.97%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	11.11.22	17.11.22	बदलाव (%)
कच्चा तेल	7124.00	6692.00	-6.06%
तांबा	702.25	680.90	-3.04%
एल्युमीनियम	211.80	207.45	-2.05%
कॉटन	33220.00	32770.00	-1.35%
मेंथा ऑयल	963.8	955.6	-0.85%

## साप्ताहिक समीक्षा

सीआरबी इंडेक्स कुछ नकारात्मक रूझानों के साथ नीचे बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स में पिछले सप्ताह गिरावट जारी रही, लेकिन गिरावट सीमित थी। बुलियन में, सोने की कीमतों में तीसरे सप्ताह भी सुपरफास्ट चाल जारी रही, जबकि एमसीएक्स में उच्च स्तर से मुनाफावसूली के कारण चांदी की कीमतों में तेजी थम गई। क्योंकि हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के कई अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि ब्याज दरों में वृद्धि जारी रहेगी, जिससे बाजार की उम्मीदें धूमिल हो गई कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक दरों में बढ़ोतरी की गति धीमी करेगा। इस कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में सर्राफा की कीमतों की तेजी पर विराम लग गया। बेस मेटल की कीमतों में पिछली बढ़त समाप्त हो गई और मजबूत डॉलर और वैश्विक स्तर पर कमजोर मांग आउटलुक के कारण कीमतें गिरावट के साथ बंद हुईं। चीन इस सप्ताह बढ़ते कोविड-19 मामलों से जूझ रहा है, जिसमें बीजिंग और ग्वांगडू जैसे कुछ बड़े शहर शामिल हैं, जिसके कारण इसके आर्थिक प्रदर्शन को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं। चीन में नए घर की कीमतें अक्टूबर में सात वर्षों में सबसे तेज गति से कम हो गई है जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में गहराते धीमेपन को रेखांकित किया और मंगलवार को कमजोर मैनुफैक्चरिंग आंकड़ों के अनुकूल है। एनर्जी काउंटर में, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी गई जबकि नेचुरल गैस की कीमतों में निचले स्तर से रिकवरी हुई। चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और अमेरिकी ब्याज दरों में अधिक आक्रामक बढ़ोतरी की आशंका के कारण मांग में कमी के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई। 5 दिसंबर को रूसी कच्चे तेल पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध और पेट्रोलियम निर्यातक देशों और सहयोगियों के संगठन, जिसे ओपेक+ के रूप में जाना जाता है, की ओर से आपूर्ति को कम करने के साथ ही इस सप्ताह मंदी की चिंता हावी हो गई है। अमेरिकी नेचुरल गैस वायदा गुरुवार को लगभग 3% बढ़कर एक सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि अगले सप्ताह ठंड के मौसम और अधिक हीटिंग मांग के पूर्वानुमान जारी रहे। गर्म मौसम के पूर्वानुमान और दो सप्ताह में पहले की अपेक्षा कम हीटिंग मांग के बावजूद कीमतों में वृद्धि हुई।

कृषि कमोडिटीज में, कॉटनऑयलसीड खली में कुछ खरीददारी देखी गई जबकि कॉटन की कीमतें एक दायरे में सीमित रही। फसल कटाई की गतिविधियों के बढ़ने से कीमतों पर दबाव पड़ने से आवक में सुधार होने की उम्मीद है। लेकिन भारतीय कपास की बढ़ती निर्यात मांग के कारण नुकसान सीमित रहा। सिंथेटिक मेंथा के आयात के बीच पर्याप्त आपूर्ति के कारण मेंथा तेल की कीमतें 960 के स्तर से नीचे टूट गईं। कैस्टर की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह तेजी जारी रही। ग्वार की कीमतों में भी बढ़त जारी रही। मसालों में जीरा की कीमतों में गिरावट हुई जबकि हल्दी की कीमतें सीमित दायरे में रही। धनिया वायदामें कुछ खरीददारी देखने को मिली। स्थानीय बाजार में कमजोर मांग के कारण उच्च स्तर पर मुनाफावसूली के कारण जीरे की कीमतों में गिरावट हुई। सुस्त मांग के कारण मुनाफावसूली अधिक बढ़ने की संभावना है। कम रकबे और उपज में गिरावट की संभावनाओं के कारण नए सीजन के लिए हल्दी का उत्पादन अनुमान कम है।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	11.11.22	17.11.22	(%)
जौ	जयपुर	3178.90	3189.20	0.32%
चना	दिल्ली	4862.50	4900.10	0.77%
धनिया	कोटा	10648.20	10552.95	-0.89%
कूड पॉम ऑयल	कांडला	903.95	852.60	-5.68%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1215.00	1182.00	-2.72%
ग्वारसीड	जोधपुर	5132.00	5699.00	11.05%
ग्वारगम	जोधपुर	10378.00	11862.00	14.30%
जीरा	ऊंझा	24457.30	24299.00	-0.65%
सरसों	जयपुर	6998.60	6929.55	-0.99%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1380.00	1350.00	-2.17%
सोयाबीन	इंदौर	5744.05	5593.85	-2.61%
हल्दी	निजामाबाद	7403.80	7496.45	1.25%
गेहूं	दिल्ली	2846.55	2848.80	0.08%
कॉटन	कडी	32568.20	33345.05	2.39%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	3080.35	3223.30	4.64%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	11.11.22	17.11.22	बदलाव (%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2463.50	2391.00	-2.94%
तांबा	LME	नकद	8492.50	8110.00	-4.50%
लेड	LME	नकद	2161.50	2150.50	-0.51%
निकल	LME	नकद	26925.00	25949.00	-3.62%
जिंक	LME	नकद	3024.50	2987.00	-1.24%
सोना	COMEX	दिसम्बर	1769.40	1763.00	-0.36%
चांदी	COMEX	दिसम्बर	21.67	20.98	-3.18%
लाइट कूड	NYMEX	नवम्बर	88.96	81.64	-8.23%
नेचुरल गैस	NYMEX	नवम्बर	5.88	6.37	8.33%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	11.11.22	17.11.22	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	जनवरी	14.17	14.55	2.68%
सोया तेल	CBOT	दिसम्बर	76.97	72.13	-6.29%
कॉटन	ICE	दिसम्बर	88.20	87.04	-1.32%
सीपीओ	BMD	फरवरी	4,287.00	4,022.00	-6.18%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	10.11.22 क्वांटिटी	17.11.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	2173	2173	0
कैस्टर सीड	मी.टन	0	0	0
चना	मी.टन	13475	10022	-3453
धनिया	मी.टन	1170	1349	179
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	0	0	0
ग्वारगम	मी.टन	9901	10783	882
ग्वारसीड	मी.टन	11102	15864	4762
जीरा	मी.टन	1412	2296	884
मक्का	मी.टन	0	50	50
सोयाबीन	मी.टन	0	0	0
हल्दी	मी.टन	1152	798	-354

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	11.11.22 क्वांटिटी	16.11.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	3770	3293	-477
तांबा	मी.टन	3970027	3934402	-35625
सोना	किग्रा	571	599	28
सोना मिनी	किग्रा	13560	13560	0
सोना गिनी	किग्रा	248300	173800	-74500
लेड	किग्रा	413	413	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	154876	156465	1589
चांदी एम	किग्रा	36139	36139	0
जिंक	मी.टन	2132	2289	156

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 11.11.22	स्टॉक की स्थिति 17.11.22	अंतर
एल्युमीनियम	552600	532975	-19625.00
तांबा	80025	89675	9650.00
निकल	50382	49926	-456.00
लेड	27100	30025	2925.00
जिंक	43050	42800	-250.00



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	दिसम्बर	24145.00	01.11.22	तेजी	23800.00	23700.00	-	23650.00
NCDEX	हल्दी	दिसम्बर	7624.00	11.10.22	तेजी	7300.00	7350.00	-	7300.00
NCDEX	ग्वारसीड	दिसम्बर	5688.00	10.11.22	तेजी	5183.00	5400.00	-	5350.00
NCDEX	कैस्टरसीड	दिसम्बर	7476.00	14.07.22	तेजी	7270.00	7230.00	-	7200.00
NCDEX	स्टील लांग	दिसम्बर	43990.00	25.08.2022	मंदी	50200.00	-	44300.00	44500.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	दिसम्बर	2752.00	03.10.22	तेजी	2300.00	2430.00	-	2400.00
MCX	कॉटन	नवम्बर	32770.00	10.11.22	तेजी	33140.00	31900.00	-	31700.00
MCX	मेंथा ऑयल	नवम्बर	955.60	23.05.22	मंदी	1080.00	-	995.00	1000.00
MCX	बुलडेक्स	नवम्बर	14648.00	10.11.22	तेजी	14545.00	14250.00	-	14200.00
MCX	चांदी	दिसम्बर	60978.00	10.11.22	तेजी	61911.00	59200.00	-	59000.00
MCX	सोना	दिसम्बर	52843.00	10.11.22	तेजी	52109.00	51100.00	-	51000.00
MCX	मेटलडेक्स	नवम्बर	17634.00	23.06.22	साइडवेज	1796.30	16500.00	18500.00	-
MCX	तांबा	नवम्बर	680.90	29.08.22	मंदी	670.00	-	708.00	710.00
<b>MCX</b>	<b>लेड</b>	<b>नवम्बर</b>	<b>182.30</b>	<b>16.11.22</b>	<b>मंदी</b>	<b>186.00</b>	-	<b>187.50</b>	<b>188.00</b>
MCX	जिंक	नवम्बर	268.30	29.08.22	मंदी	312.00	-	287.00	290.00
MCX	एल्युमिनियम	नवम्बर	207.45	29.08.22	मंदी	210.00	-	216.00	217.00
<b>MCX</b>	<b>कच्चा तेल</b>	<b>नवम्बर</b>	<b>6692.00</b>	<b>14.11.22</b>	<b>मंदी</b>	<b>7250.00</b>	-	<b>7260.00</b>	<b>7300.00</b>
MCX	नेचुरल गैस	नवम्बर	527.30	05.09.22	साइडवेज	480.00	450.00	550.00	-

\*17/11/2022 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पकड़ती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना को ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन युद्ध को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### कच्चा तेल ( दिसम्बर ) एमसीएक्स



### कच्चा तेल ( दिसम्बर ) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 7605

निचला स्तर: 6508

एमसीएक्स में कच्चा तेल (दिसम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 17 नवम्बर 2022 को 6720.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 7034.19 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 40.223 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

7100.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 6400.00 ₹ के टारगेट के लिए 6850.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### कैस्टरसीड ( दिसम्बर ) एनसीडीईएक्स



### कैस्टरसीड ( दिसम्बर ) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 7650

निचला स्तर: 6850

एनसीडीईएक्स में कैस्टरसीड (दिसम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 17 नवम्बर 2022 को 7476.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 7433.44 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 66.232 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

7280.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 7800.00 ₹ के टारगेट के लिए 7400.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### जिंक ( नवम्बर ) एमसीएक्स



### जिंक ( नवम्बर ) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 290.00

निचला स्तर: 248.30

एमसीएक्स में जिंक (नवम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 17 नवम्बर 2022 को 268.40 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 267.81 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 49.469 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

282.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 252.00 ₹ के टारगेट के लिए 274.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

भौतिक बाजार में आपूर्ति की कमी को देखते हुए पिछले सप्ताह हल्दी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। हल्दी के रकबे में काफी गिरावट के कारण आगामी सीजन में कम उत्पादन की आशंका से कीमतों को मदद मिली। कमजोर आपूर्ति परिदृश्य को देखते हुए आने वाले सप्ताह में हल्दी की कीमतों में मजबूती रहने की संभावना है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में हल्दी का रकबा काफी कम हो गया है, जो आने वाले सीजन में कम उत्पादन का अनुमान है। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में प्रतिकूल के कारण उपज में कमी की संभावना है। मौजूदा स्तरों पर निर्यात पूछताछ अच्छी है जो कीमतों में तेजी को मदद मिलेगी। अगस्त 22 में हल्दी के निर्यात में साल-दर-साल 5% की वृद्धि हुई और वर्ष 2022 में अब तक 15% की वृद्धि हुई। उपरोक्त फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए, कीमतों को 7200 पर सपोर्ट रहने की संभावना है और आने वाले दिनों में 7900 की ओर बढ़ने की उम्मीद है।

उच्च स्तर पर मुनाफावसूली के कारण जीरा (दिसंबर) वायदा की कीमतों में पिछले सप्ताह भारी गिरावट हुई है। हाजिर बाजार में आपूर्ति की कमी को देखते हुए इस सप्ताह जीरा की कीमतों में रिकवरी की उम्मीद है। आवक कम हो रही है क्योंकि स्टॉकस्ट अभी भी आशावादी हैं और कीमतों में और वृद्धि की उम्मीद में आवक कम हो रही है। नवंबर, 22 में अब तक जीरा की कुल आवक 8.3 हजार टन दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 18.3 हजार टन की आवक हुई थी। स्टॉकस्टों ने पिछले वर्षों के कम कैरीओवर स्टॉक के बीच कम उत्पादन के मद्देनजर स्टॉक रोक कर रखा है, जिससे वर्ष 2022 में कुल आपूर्ति कम हो रही है। जीरा (दिसम्बर) वायदा कीमतों में 23800 के सपोर्ट के साथ 25000 के रेंजिस्टेंस स्तर की ओर बढ़ने की संभावना है।

धनिया (दिसंबर) वायदा की कीमतों के नरमी के रूझान के साथ साइडवेज व्यापार करने की उम्मीद है। बाजार की नजर पूरे भारत में चल रही बुवाई की प्रगति के संकेतों पर रहने की संभावना है। अब तक बुवाई की प्रगति सामान्य रही है और किसानों को बेहतर कीमत मिलने के कारण कुल रकबे में सुधार की उम्मीद है। बढ़ते आयात के कारण प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति पर्याप्त है जो खरीदारों को थोक खरीद से दूर रखे हुए है। धनिया की कीमतों के अभी भी सामान्य भाव से अधिक होने के कारण छोटे कारोबारी थोक खरीदारी से दूर है, जब तक कि कीमतें अपना सामान्य व्यवहार नहीं दिखाती हैं। धनिया की कीमतों को 10800 के स्तर पर रेंजिस्टेंस रहने की संभावना है और निकट अवधि में कीमतों में 10000 के स्तर तक गिरावट हो सकती है।

### अन्य कमोडिटीज

स्थानीय बाजार में बढ़ती आपूर्ति के कारण कॉटन वायदा (नवंबर) की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। फसल कटाई की गतिविधियों में प्रगति के साथ आवक में सुधार होने की उम्मीद है जिससे कीमतों पर दबाव पड़ेगा। आर्थिक मंदी, जिसने दुनिया भर में कपड़े की मांग को प्रभावित किया, के बीच सूती धागे की मांग कम रही है। भारत में सूती धागे के बढ़े हुए आयात ने भी मांग की संभावनाओं को कम कर दिया क्योंकि मिलों ने उच्च घरेलू कीमत के कारण आयातित सूती धागे को तरजीह दी। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने धागे और कपड़े की सुस्त मांग के कारण भारत में कपास के अपने मांग अनुमान को कम कर दिया है। 2022-23 के लिए कपास की खपत पिछले वर्ष के 318 लाख गांठों की तुलना में 300.00 लाख गांठ होने का अनुमान है। कीमतों को 29500 पर सपोर्ट मिलने की संभावना है और निकट अवधि में कीमतें धीरे-धीरे 35000 की ओर बढ़ सकती हैं।

घरेलू बाजार में खरीददारी बढ़ने से कॉटनसीडऑयल के (दिसंबर) वायदा की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। कॉटन सीडऑयल के कम उत्पादन के कारण स्टॉकस्ट सक्रिय हैं अन्य ऑयल के कीमतों में मजबूती और स्थानीय बाजार में बढ़ी हुई मांग से कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है। कीमतों के 2400 के स्तर पर सपोर्ट रहने की संभावना है और आने वाले सप्ताह में यह 3000 की ओर बढ़ सकती है।

स्थानीय बाजार में खरीददारी बढ़ने के कारण ग्वारसीड (दिसंबर) वायदा की कीमतों में तेजी के रूझान के साथ साइडवेज रहने की संभावना है। उत्पादन अनुमानों में गिरावट और ग्वारगम की उभरती निर्यात मांग से आने वाले दिनों में कीमतों को मदद मिलेगी। ग्वारगम और अन्य उपोत्पाद जैसे चुरी और कोरमा की मांग भी बढ़ रही है क्योंकि बाजार में कमजोर आपूर्ति के मद्देनजर स्टॉकस्ट सक्रिय हैं। लेकिन सप्ताह के दौरान मुनाफावसूली की उम्मीद है क्योंकि नवंबर में कीमतें पहले ही 20% से अधिक बढ़ चुकी हैं। ग्वारसीड की कीमतों के 5700-6200 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

मंथा ऑयल (नवंबर) वायदा की कीमतों में तेजी के रूझान के साथ मिला-जुला कारोबार होने की संभावना है। मंथा ऑयल में कीमतों में रिकवरी की उम्मीद है क्योंकि कीमतें 950 के सपोर्ट के करीब चल रही हैं। उत्पादन कम होने के कारण आवक भी प्रभावित हुई है। कीमतों को 950 का समर्थन रहने की संभावना है और निकट भविष्य में कीमतें धीरे-धीरे 1010 तक बढ़ सकती हैं।

हाजिर बाजार में आपूर्ति की कमी के कारण अरंडी वायदा (दिसंबर) की कीमतों में तेजी बरकरार रहने की संभावना है। कम उत्पादन अनुमान और पाइपलाइन में कम स्टॉक कारोबारियों को कैंस्टर सीड में लांग पोजीशन बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। आने वाले समय में अरंडी की कीमतों को 7100 पर सपोर्ट बने रहने की संभावना है और निकट भविष्य में 7700 के रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है।

### सर्पाफा

सर्पाफा की कीमतों में पिछले सप्ताह मिला-जुला रुख देखने को मिला, जहां सोने की कीमतें बढ़त दर्ज करने में कामयाब हुई लेकिन चांदी की कीमतों में गिरावट हुई। अमेरिकी केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दर में अधिक बढ़ोतरी के संकेतों से कीमतों पर दबाव पड़ा। मंदी के बढ़ते जोखिमों, अभी भी चल रहे यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर से गिरावट से सोने की कीमतों को समर्थन मिलना जारी है। दूसरी ओर, चीनी अर्थव्यवस्था के प्रति बढ़ती उम्मीद, अभी भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों को बाजार की अपेक्षा से अधिक और अधिक आक्रामक रूप से बढ़ाने का उच्च जोखिम, और तीसरी तिमाही में मुद्रास्फीति के अधिकतम स्तर पर पहुंचने की संभावना से सोने की कीमतों पर दबाव जारी रह सकता है। लेकिन, अमेरिकी मुद्रा अभी भी एक महीने में सबसे अच्छी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की है क्योंकि फंड अधिकारियों की आक्रामक टिप्पणी और अनुमान से अधिक घरेलू मासिक खुदरा बिक्री ने मुद्रास्फीति में कमी के संकेतों रोक लगा दिया। दरों में लगातार चार बार 75 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि के बाद, फंड की दिसंबर की बैठक में बाजार को 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की संभावना 87% है। मिनियापोलिस फेड बैंक के अध्यक्ष नील काशकारी ने कहा कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक को तब तक दर वृद्धि नहीं रोकनी चाहिए जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि मुद्रास्फीति अधिकतम स्तर पर है। स्विस् सीमा शुल्क के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन और तुर्की को स्विस् सोने का निर्यात अक्टूबर में अधिक हुआ है, जबकि भारत में शिपमेंट कम हो गया। तकनीकी मोर्चे पर, कोमेक्स पर सोने की कीमतों को 1780 डॉलर के पास रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, और जब तक कीमतें उस स्तर से नीचे बनी रहती हैं जब तक सोने की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है, लेकिन 780 डॉलर के ऊपर जाने पर कीमतें 1820 डॉलर तक पहुंच सकती हैं। कॉमेक्स चांदी की कीमतों को 19.800 डॉलर के पास सपोर्ट और 22.570 डॉलर के पास रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। एमसीएक्स पर सोने की कीमतों को 50500 के पास सपोर्ट और 53800 के पास रेंजिस्टेंस मिल सकता है। चांदी उच्च अस्थिरता के साथ 57400-64000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

पूर्वी यूरोप में भू-राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें साप्ताहिक स्तर पर गिरावट दर्ज की हैं, जबकि चीन में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के कारण दुनिया के सबसे बड़े कच्चे आयातक में आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने का जोखिम बरकरार है। चीन ने इस सप्ताह 20,000 से अधिक दैनिक नए कोविड मामलों की सूचना दी, जो लगभग सात महीनों में सबसे अधिक वृद्धि, जिसने स्वास्थ्य अधिकारियों को अपनी सख्त शून्य-कोविड नीति की समीक्षा करने में अनिच्छुक बना रही है और देश का आर्थिक सुधार धीमा हो गया है। यूक्रेन की सीमा के पास नाटो सदस्य पोलैंड के क्षेत्र में एक मिसाइल के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध बढ़ने की आशंका बढ़ जाने से बुधवार तड़के बाजार में कीमतों में वृद्धि देखी गई थी। लेकिन नाटो के अधिकारियों के यह कहने के बाद तनाव कम हो गया है कि मिसाइल को शायद गलती से यूक्रेन की हवाई रक्षा से छोड़ा गया है और इस प्रकार रूस द्वारा जानबूझकर कदम नहीं उठाया गया है फिर भी गैसोलीन और डिस्टिलेट ईंधन दोनों के भंडार में अपेक्षा से अधिक बढ़ोतरी हुई। अभी भी आपूर्ति की तस्वीर बहुत कम बनी हुई है, और रूसी तेल पर लंबे समय से प्रतीक्षित प्रतिबंधों और मूल्य सीमा के कुछ ही हफ्तों में, 5 दिसंबर को प्रभावी होने के साथ आपूर्ति में कमी बढ़ सकती है। इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती हैं जहां इसे 6300 के पास सपोर्ट मिल सकता है और संभवतः 7000 के पास रेंजिस्टेंस का सामना कर सकता है। ठंड के मौसम के पूर्वानुमान के कारण नेचुरल गैस की कीमतों में तेजी आई है और महाद्वीप के शीर्ष निर्यातक नॉर्वे से आपूर्ति में कमी आई है। नैटगैसवेदर के अनुसार अगले सात दिनों में मांग बेहतर रहने की संभावना है। इस सप्ताह में गैस की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार होने की संभावना है जो पूरी तरह से मौसम की रिपोर्ट पर निर्भर करता है और कीमतें 470-530 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।





## बेस मेटल


बेस मेटल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती है क्योंकि निवेशकों का मानना है कि चीन द्वारा कोविड-19 प्रतिबंधों में मामूली ढील दी गई है और मांग में कमी जारी रहेगी। अमेरिकी खुदरा बिक्री के और फेड अधिकारियों की आक्रामक टिप्पणियों के बाद मुद्रास्फीति के कम होने की संभावना फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी के अपने आक्रामक कदमों पर रोक को लेकर संदेह के कारण डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने के कारण कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। लेकिन सख्त कोविड-19 प्रतिबंधों के को लेकर कोई भी ढील और इससे संकटग्रस्त रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए अधिक समर्थन की घोषणा से बेस मेटल को कुछ राहत मिल सकती है। तांबे की कीमतें 665-695 के दायरे में कारोबार कर सकती है। बेंचमार्क एलएमई में तांबे के कम स्प्रेड ने बेहतर आपूर्ति का संकेत दिया जबकि चीन में तांबे का बढ़ता उत्पादन भी बाजार पर दबाव बना रहा है। तांबे के स्प्रेड ने अपनी छूट को बढ़ाकर 35 डॉलर प्रति टन कर दिया है, जो आठ महीनों में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, चीन ने अक्टूबर में 953,000 टन रिफाई तांबे का उत्पादन किया, जो एक साल पहले की तुलना में 10.9% अधिक है। लेकिन एमएमजी लिमिटेड की लास बंबास तांबे की खदान में खनन गतिविधियां आसपास के समुदायों के अवरोधों के कारण केवल 30% क्षमता पर चल रही हैं। जिंक की कीमतें 257-282 के दायरे में कारोबार कर सकती है। लेड की कीमतें 176-187 के दायरे में कारोबार कर सकती है। अनुमान से कमजोर वृद्धि और चीन में मंदी, यूरोजोन में उभरती मंदी और स्टॉक आंकड़ों के आधार पर बाजार में अधिक आपूर्ति के साक्ष्य के कारण एल्युमीनियम की कीमतें मंदी के रूझान के साथ 195-215 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एल्युमीनियम की आपूर्ति बरकरार है क्योंकि एलएमई ने रूस में उत्पादित धातु के व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाने या इसे अपने गोदामों में रखने का फैसला किया है। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन्ग (दिसंबर) वायदा की कीमतों के 41800 के नीचे कारोबार करने की संभावना है।

## मुद्रास्फीति..... वैश्विक विकास के समक्ष अड़चन

विश्व स्तर पर कई तरह की भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच, वैश्विक अर्थव्यवस्था दो चुनौतियों का सामना कर रही है: बढ़ती मुद्रास्फीति और घटती वृद्धि दर। दोनों ही समस्याएं कोविड -19 प्रतिबंधों के साथ धीरे-धीरे शुरू हुई थी और अब यूक्रेन पर रूस के निरंतर आक्रमण के कारण बढ़ती जा रही है। दोनों ही मामलों में, आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान के कारण वैश्विक स्तर पर कीमतों में वृद्धि हुई। नतीजतन, न केवल पिछले दो वर्षों में कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की दर कई गुना बढ़ी है, बल्कि आईएमएफ, विश्व बैंक और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) उच्च मुद्रास्फीति और धीमी आर्थिक गतिविधि के कारण अर्थव्यवस्थाओं के विकास को अपने प्रत्येक पूर्वानुमान में कमी कर रहे हैं। यूरोप में ऊर्जा की भारी कमी, अमेरिका में पहले से अधिक भयावह मंदी, या चीन में महामारी को लेकर अधिक प्रतिबंध और चीन में अचल संपत्ति में एक अनिर्वाचित गिरावट भी हो सकती है। आईएमएफ के अनुसार, वैश्विक विकास दर 2021 में 6.0 प्रतिशत से धीमी होकर 2022 में 3.2 प्रतिशत और 2023 में 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

## दुनिया भर में महंगाई

आईएमएफ का अनुमान है कि 2022 के अंत में वैश्विक मुद्रास्फीति अधिकतम स्तर पर होगी, जो 2021 में 4.7% से बढ़कर 8.8% हो जाएगी, और यह पहले की अपेक्षा से अधिक समय तक ऊंचा रहेगा। चीन की शून्य-कोविड नीति - और इसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन - से उसकी अर्थव्यवस्था लगातार बाधित हो रही है। चीन की अर्थव्यवस्था में संपत्ति क्षेत्र का लगभग पांचवां हिस्सा है, और जैसे-जैसे बाजार संघर्ष करता है, विश्व स्तर पर इसके प्रभाव महसूस किए जाते हैं। अक्टूबर 2022 में यूरो का उपयोग करने वाले 19 देशों में प्रमुख मुद्रास्फीति 10.7% रही, जो एकल यूरोपीय मुद्रा की शुरुआत के बाद से उच्चतम दर है। बढ़ते घरेलू ऊर्जा बिल और खाद्य कीमतों के कारण ब्रिटिश मुद्रास्फीति को 41 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है लेकिन अमेरिका में, सीपीआई आंकड़े पिछले महीने के 8.2 प्रतिशत से गिरकर 7.7 प्रतिशत रह गए हैं, जो 7.9 प्रतिशत के अनुमान से कम है। कोविड-19 मामलों में फिर से बढ़ोतरी के कारण, अक्टूबर महीने के दौरान नए सिरे से लॉकडाउन उपायों के कारण चीन में उपभोक्ता मुद्रास्फीति उम्मीद से अधिक धीमी हो गई। पिछले साल के इसी महीने की तुलना में अक्टूबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति तीन महीने के निचले स्तर 6.77% पर आ गई।



स्रोत: रॉयटर्स और एसएमसी रिसर्च

## महंगाई से लड़ने के लिए दरों में बढ़ोतरी

मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए ब्याज दर में वृद्धि मुख्य उपकरण है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी करके मौद्रिक सख्ती शुरू कर दी, जिससे अर्थव्यवस्था धीमी हो गई। अधिक उधारी दरें उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कोई भी निवेश करने से रोकने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे मांग कम हो जाती है और कीमतों में गिरावट होती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश में तीन दशकों में ब्याज दर में सबसे अधिक वृद्धि की घोषणा की है। फेड ने फरवरी में अपनी प्रमुख ब्याज दर को 0.25% से बढ़ाकर वर्तमान में 4% कर दिया। यह उद्देश्य को ठीक से पूरा नहीं कर पाया क्योंकि इस बार आसान धन की तुलना में मुद्रास्फीति आपूर्ति की कमी से अधिक संचालित है। अब विचार कर रहे हैं।

फेडरल रिजर्व पहले ही तीन बार दरों में बढ़ोतरी कर चुका है, उनमें से अंतिम बार 0.75% की बढ़ोतरी की थी। यह 1994 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि थी। फेड के अनुमानों के अनुसार, 2022 के अंत तक, दरें 3% से 3.5% के बीच होंगी। लेकिन फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने पिछले महीने कहा था कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक मंदी को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, भले ही ऐसा करने से आर्थिक मंदी का खतरा हो। स्विज नेशनल बैंक ने पिछले महीने 15 साल में पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके बाजारों को चौंका दिया। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इस सप्ताह दूसरे महीने दरों में आधा अंक की वृद्धि की, और बैंक ऑफ कोरिया द्वारा अगले सप्ताह समान मात्रा की वृद्धि देने की उम्मीद है और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के कुछ अधिकारी दरों में भारी बढ़ोतरी का सुझाव दे रहे हैं। बैंक ऑफ कनाडा इस महीने अपनी दरों में 75 बेसिस प्वाइंट और सितंबर में 50 बेसिस प्वाइंट और बढ़ाने की तैयारी में है।

## वैश्विक मंदी की प्रबल संभावना

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आउटलुक अप्रैल के बाद से 'काफी कमजोर' हो गया है और मुद्रास्फीति के अधिक सार्वभौमिक प्रसार, अधिक ब्याज दरों में वृद्धि, और यूक्रेन में रूस के युद्ध से संबंधित बढ़ते प्रतिबंध के कारण अगले साल संभावित वैश्विक मंदी से इंकार नहीं कर सकता है।



## एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**डिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोziशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।